



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 कार्तिक 1932 (श0)
(सं0 पटना 731) पटना, सोमवार, 25 अक्टूबर 2010

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

30 सितम्बर 2010

सं0 22/नि0सि0(मुक0)—जम0—19—60/2009/1484—सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0 15331/09 (चन्द्र कुमार दास बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) में दिनांक 1 दिसम्बर 2009 को पारित निर्णय के अनुपालन में श्री चन्द्र कुमार दास, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, लधु सिंचाई प्रमण्डल, गिरीडीह सम्प्रति सेवा—निवृत्त को बिहार पेंशन नियमावली के नियम—43 बी0 के तहत "50 (पचास) प्रतिशत पेंशन एवं पूर्ण उपादान पर सदा के लिए रोक" का दण्ड के प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 1156, दिनांक 13 अगस्त 2010 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार से दिनांक 8 सितम्बर 2010 के पूर्व सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था लेकिन दिनांक 6 सितम्बर 2010 तक बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार की सहमति प्राप्त नहीं हो सकी। तत्पश्चात उक्त न्याय निर्णय के अनुपालन में बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति की प्रत्याशा में विभागीय अधिसूचना सं0 1306, दिनांक 6 सितम्बर 2010 द्वारा श्री दास सेवा—निवृत्त कार्यपालक अभियन्ता को निम्न दण्ड संसूचित किया गया।

(क) 50 (पचास) प्रतिशत पेंशन एवं पूर्ण शत प्रतिशत उपादान पर सदा के लिए रोक।

(ख) निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा। परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन के प्रयोजनार्थ की जायेगी।

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 1677, दिनांक 16 सितम्बर 2010 द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 8 सितम्बर 2010 को सम्पन्न बैठक में आयोग की पूर्ण पीठ द्वारा श्री दास सेवा—निवृत्त कार्यपालक अभियन्ता की प्रस्तावित दण्ड पर सहमति प्रदान की गयी। तदनुसार उक्त अधिसूचना सं0 1306, दिनांक 6 सितम्बर 2010 सम्पुष्ट किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण कुमार प्रसाद,
सरकार के उप—सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 731-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>